

सहज योग - आज का महायोग

सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जगपाल सिंह, उत्तराखंड
6397904625

श्रीचंद चौधरी, राजस्थान
9829010470

डॉ. एम.वी कुल्कर्णी, पुणे
9921173439

जी. डी. पारीक, राजस्थान
9828451514

राजेश देसारी, हैदराबाद
9652148965

डॉ. वीरेंद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश
09418045229

प्रकाश पटेल, मध्य प्रदेश
9617262117

तरुण चौधरी, दादरी
80100 06868

विजयराज सिंह, मध्य प्रदेश
9806231877

मोहन नायर, पलक्कड़, केरल
9447839465

छोटू लाल, राजस्थान
9116604049

पंजाबराव बिहाड़े, महाराष्ट्र
9552273001

सहज कृषि से फ़ायदे :

ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन
पौधों की अच्छी बढ़वार / विकास
प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा
पशु आहार की गुणवत्ता में सुधार
पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार
रोग प्रतिरोधकता
दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी

आओ श्री माताजी की पावन देन से सहज
कृषि आंदोलन को संपूर्ण विश्व में साकार करें।
सहज कृषि जैविक खेती के सिद्धांतों पर
आधारित है।



सहज योग कृषि

मिशन - ग्रामीण क्षेत्रों में सहज योग और सहज कृषि का प्रसार।

विजन - सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय में शांति और समृद्धि, सहज योग ध्यान
के माध्यम से कृषि और पशुधन उत्पादन में वृद्धि एवं दूसरी हरित क्रांति
की तैयारी।



जानिए ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न चैतन्य लहरियों का
कृषि, बागवानी, घरेलु उद्योग एवं पशुपालन पर प्रभाव

सहज योग कृषि अपनाओ
चैतन्य, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाओ

गाँव गाँव में अलख जगाओ
सहज योग - सहज कृषि फैलाओ

सहज योग पूर्णतः निःशुल्क है
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
www.sahajkrishi.org



नए सहज कृषि चमत्कार से उत्पन्न पदार्थों की विस्तृत जानकारी लिखें, तस्वीरें / वीडियोस फ़ोन नंबर/
व्हाट्सप्प आदि के साथ शेयर करें। सभी से विनम्र प्रार्थना है कि सहज कृषि मिशन (आंदोलन) की सफल
के लिए अपने अच्छे विचार एवं सुझाव भी व्हाट्सप्प पे सूचित करें।

जी. डी. पारीक : 98284 51514 | जी. के. अदलखा : 98712 78936



सहज योग की खोज श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 1970 में मानव के कल्याण के लिए की थी। सहज योग में कुंडलिनी जागरण द्वारा निर्विचार समाधि एवं मानसिक शांति से लोगों को आत्मबोध होता है और अपने आप को जानने में सहायता मिलती है। श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा विकसित इस योग को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिहाज़ से अत्यंत लाभदायक पाया गया है।

सहज योग में आसान मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। ध्यान के दौरान इसका अभ्यास करने वाले लोगों में सिर से लेकर हाथों में एक ठंडी हवा का एहसास होता है। चिकित्सकों ने सहज योग के अन्य प्रभावों के बारे में भी बताया है। इस योग को करने से लोगों को तनाव से मुक्ति व आराम मिलता है।

सहज योग के अर्थ को यदि हम विस्तृत करें तो 'सह' का अर्थ है हमारे साथ, 'ज' का अर्थ है पैदा हुआ और 'योग' का अर्थ है जुड़ना। इस योग के घटित होते ही मानव पर परमात्मा की कृपा बरसने लगती है, जिसके चलते उसकी अंतर्जात प्रतिभा खिल उठती है, वह तनाव मुक्त जीवन पाता है साथ ही निःस्वार्थ प्रेम एवं आनंद में लिप्त हो जाता है।


प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जन्म से ही एक सूक्ष्म तंत्र होता है। जिसमें तीन नाड़ियां, सात चक्र और परमात्मा की दी हुई शक्ति विद्यमान है। परमात्मा की यही शक्ति जो कि कुंडलिनी शक्ति के नाम से जानी जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में सुप्त अवस्था में रहती है।

श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा सहजयोग के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति की जागृति सहज में ही हो जाती है और मनुष्य योग अवस्था को प्राप्त करता है।

यह योग परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ने का अत्यंत सरल मार्ग है।

गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर आदि महान ज्ञानियों के प्रवचन में सहज योग का उल्लेख मिलता है। सहज योग की मदद से कई लाइलाज बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक सभी तरह के लाभ शरीर को मिलते हैं। यह आत्मज्ञान को प्राप्त करने की बहुत ही सुलभ ध्यान पद्धति है।

इस पद्धति को सीख कर हर इन्सान अपने हर कार्य को व अपने जीवन को सफल बना सकता है। इससे तनाव दूर होता है - इसका अभ्यास करने वाला व्यक्ति पूरा दिन उर्जा से परिपूर्ण होता है।



**बीज का प्रस्फुटित होना एक जीवन्त प्रक्रिया है
ठीक उसी तरह कुंडलिनी शक्ति जागरण भी एक जीवन्त क्रिया है
आइये अपने अंदर की ईश्वरीय शक्ति को
सहज योग द्वारा जागृत करें**



सहज योग से सहज कृषि

1. **आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करें** - जो भी कृषक या आमजन सहज कृषि करने में सच्ची रूचि रखते हों उन्हें सबसे पहले आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए जो इस पद्धति की पहली सीढ़ी है। आत्म-साक्षात्कार का अनुभव वह चाहे किसी निकट वाले सहज योग ध्यान केंद्र से या किसी ऐसे परिचित व्यक्ति से जो सहज योग से जुड़ा हो प्राप्त कर सकते हैं।

2. **सहज योग में परिपक्वता प्राप्त करने के लिए ध्यान करें** - आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करके अपने सूक्ष्म तंत्र की परिपक्वता लाना नितांत आवश्यक है। जब वह स्थिति आती है तभी यह शरीर यंत्र के रूप में कार्य करने के योग्य बनता है जहाँ परमात्मा की दैव्य शक्ति चैतन्य के रूप में सर के तालु भाग से और हाथों से बहने लगती है। यह एक ऐसा आनन्दीय अनुभव होता है कि इच्छा होती है की स्थिति में बने रहें। यही वह शक्ति है जिस को हम कृषि के कार्यकलापों में इस्तेमाल करते हैं।

हालाँकि जिस भी माध्यम से इच्छुक कृषिजन या साधक आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे वहाँ भी सहज योग के ध्यान की विधि से परिचित करायेगें, अपितु सुविधाजनक एवं स्मरण हेतु इस विधि को निम्नलिखित पंक्तियों तथा चित्रों द्वारा समझाया गया है।

कुण्डलिनी उठाना

यह प्रक्रिया हमारे कुण्डलिनी शक्ति को उठाने तथा हमारे चित्त को स्थिर करने में मदद करती हैं। यह ध्यान से पहले तथा ध्यान के बाद हमारे लिए मददगार है।



बायें हाथ की हथेली पेट के नीचे तथा शरीर के सामने रखेंगे।

1. बायें हाथ को धीरे-2 उठाते हुए सिर के तालु भाग पर लेकर जाएंगे। जब बाया हाथ ऊपर जा रहा हो तो दायां हाथ घड़ी की सुई की दिशा में बांये हाथ के चारो तरफ घुमाना है।



2. दांया हाथ अंदर की तरफ से बाहर की ओर तब तक घुमाना है जब तक कि दोनो हाथ सिर के तालु भाग तक नहीं आ जाते। इस पूरी प्रक्रिया में अपना चित्त बांये हाथ की हथेली पर रखना है।




3. अब दोनो हाथों को सिर पर घुमाते हुए एक गांठ लगानी हैं।



4. इस प्रक्रिया को हम तीनो नाड़ियों के लिए तीन बार दोहराएंगे | पहली बार में एक गांठ लगेगी, दूसरी बार में दो गांठ लगानी है तथा तीसरी बार में तीन गांठे सिर के तालू भाग पर लगानी है।

बंधन लेना



बंधन लेना ना सिर्फ हमारी रक्षा करता हैं। अपितु यह हमारी दांयी तथा बांयी नाड़ियों को संतुलित रखता है। बंधन लेना ध्यान शुरु करने से पहले तथा ध्यान के पश्चात् आपके लिए मददगार होता है। बांया हाथ जिसकी हथेली ऊपर की ओर हो अपनी गोद में स्थिर रखें |

अपना सीधा हाथ बायीं तरफ के नितम्ब स्थान से :

- (1) धीरे-धीरे उठाते हुए शरीर के दांये भाग से नीचे लेकर आते है।
- (2) अब सीधे हाथ को वापस दांयी तरफ से सिर के तालु भाग से पुनः वापस लाते हुए (जहां से कुण्डलिनी का प्रवाह हो रहा है) शरीर के बांये भाग पर जहां से शुरू किया वहां पर वापस लाना है।
- (3) यह एक बन्धन होता है | प्रत्येक चक्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को सात बार दोहराना।

संतुलन और ध्यान

ध्यानावस्था प्राप्त करने के लिए स्वयं को संतुलन में आना आवश्यक है (संतुलन का अर्थ - भूतकाल व भविष्यकाल से परे वर्तमान में आना है)। शरीर के बाँयें तथा दायें भाग को शुद्ध करके संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। उसकी विधि निम्नलिखित हैं :-



परम पूज्य श्रीमाताजी की बिन्दी की ओर देखते हुए अपना बाँया हाथ परमपूज्य श्री माताजी की ओर फैलाये रखें तथा दाँया हाथ (हथेली नीचे को करके) पृथ्वी पर रखे - प्रार्थना करें कि **"परमपूज्य श्री माताजी कृपा करके मेरे शरीर के बाँयें हिस्से के विकारों को दूर कर दीजिए"** | कृपया आप हमारी जड़ता को पृथ्वी में निकाल दीजिए।



थोड़ी देर इस अवस्था में बैठने के बाद - अपना दाँया हाथ परम पूज्य श्री माताजी के फोटो के सम्मुख फैला लें तथा बाँया हाथ (हथेली पीछे की ओर करके) आकाश की ओर उठा लें। प्रार्थना करें कि **" परम पूज्य श्री माताजी कृपा करके मेरे शरीर के दायें हिस्से को शुद्ध कर दीजिए।"** कृपया आप हमारा अहंकार, क्रोध एवं कर्ता भाव आकाश में निकाल दीजिए, हमें कृपया विनम्रता प्रदान कीजिए। इस अवस्था में भी थोड़ी देर बैठें।



तत्पश्चात् अपने दोनों हाथ (हृदय के स्तर पर लाकर) श्री माताजी की ओर फैला दें तथा पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें **" श्री माताजी, कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कर दीजिए। हमें ध्यान में ले जाईये।"**

नियमित रूप से ध्यान करें

सहज योग में आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात् नियमित रूप से प्रातः कालीन एवं सायं कालीन ध्यान करना एक साधक के आध्यात्मिक जीवन को प्रगतिशील बनाता है। फलस्वरूप उसकी चैतन्यित जागरूकता बढ़ती है और उसके शरीर से जब वह दिव्य शक्ति बहने लगती है उसका उपयोग वह सकारात्मक कार्यों में करता है। यही वह शक्ति है जो एक कृषक खेती में बढ़ोतरी के लिए करता है या एक साधक अनेक कार्यों के लिए करता है।

सामूहिक सहज योग ध्यान में भाग लें

यद्यपि दो वक्त का ध्यान घर पर करना ही करना है त्वदपि सप्ताह में एक बार सामूहिक ध्यान में भागीदारी करना हमारी आध्यात्मिक प्रगति को सुनिश्चित करता है जो अत्यंत लाभकारी होता है।

प्रतिदिन चैतन्यित जागरूकता महसूस करें

प्रतिदिन नियमित ध्यान से साधक के हाथों में चैतन्य लहरियां एक दिव्य शक्ति के रूप में बहने लगती हैं जिसका प्रयोग एक कृषक अपनी खेती में ज्यादा उत्पादन के लिए कर सकता है। न केवल खेती अपितु इन चैतन्य लहरियों के उपयोग से कृषक अपने निजी जीवन को भी खुशहाल और समृद्ध बना सकता है। चैतन्य का यह बहाव एक साधक को प्रतिदिन अनुभव होना चाहिए, तभी इसका प्रभाशाली प्रयोग हो सकता है।

कृषि के लिए सहज योग तकनीकों को लागू करें

एक बार हम सहज योग में स्थापित हो गए तत्पश्चात् चैतन्य की ऊर्जा, जो हमारे शरीर से प्रभावी रूप से बहने लगती है उसका लाभ हमें कृषि उत्पादन बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। परन्तु सहज कृषि कैसे करनी है इसके लिए अनुभवी सहज योगियों की मदद लेना लाभकारी होगा, विशेषकर वह जिनको सहज कृषि के बारे में जानकारी होगी। इसके लिए निकटतम सहज योग ध्यान केंद्र से संपर्क करना चाहिए। कुछ उपयोगी जानकारी निम्नलिखित है।

सहज योग कृषि क्षेत्र के लिये भी एक वरदान है।

".....कृषि के क्षेत्र में भी सहज योग में अनेक शोध कार्य हुए हैं। एक सहज योगी भाई जो कृषि विशेषज्ञ है, उन्होंने आत्मसाक्षात्कार के बाद चैतन्य लहरियों पर काफी शोध किया है। जल को चैतन्यित करके यदि आप पौधों को सींचे तो थोड़े से समय में ही आपको दस गुनी फसल प्राप्त हो सकती है। यह कार्य भारत के राहुरी कृषि विश्वविद्यालय में हुआ है। इन लोगों ने पाया कि एक सर्वसाधारण पौधे और चैतन्यित जल से सींचे जाने वाले पौधे के विकास में बड़ा भारी अंतर होता है। कृषि के क्षेत्र में एक अन्य परिणाम जो हमने देखा है, वो ये है कि यदि आप चैतन्य दें तो सर्वसाधारण गाय भी बहुत सा दूध देगी।

भारत के कृषि क्षेत्र में भी इससे बहुत सहायता मिल सकती है। सरकार ने हमें बहुत सारी जमीन पट्टे पर दी है, जहाँ हम कृषि के क्षेत्र में प्रयोग करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि चैतन्य लहरों का किस प्रकार से उपयोग किया जाय। कुछ सहजयोगी किसानों ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उन्होंने खोज निकाला है कि चैतन्य लहरियों का पशुओं तथा खेती पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है।"

परमपूज्य माताजी श्री निर्मलादेवी
(संदर्भ: निर्मल सुरभि पृ. सं. 236)



सहज का सार

श्री माताजी के अनुसार वाइब्रेशन [चैतन्य लहरियाँ / स्पंदन] एक जीवंत प्रक्रिया हैं जो सोचती है और कार्य करती है । जिस प्रकार लोहे पर चुम्बक का प्रभाव होता है, उसी प्रकार यह कार्य करती है। **इन चैतन्य लहरियों का प्रभाव जीवन्त चीजों पर क्रमशः पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वातावरण के साथ-साथ मानव के उत्थान पर भी पड़ता हैं** | अतः हम सहज कृषि को बागवानी, फल, फूल, सब्जी, मसाले, औषधियाँ, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, वर्मी कम्पोस्ट, मुर्गी पालन, मशरूम, मछली पालन इत्यादि में प्रयोग कर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करके खुशहाल हो सकते हैं।



जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे चक्र साफ हो जाते हैं, शुद्ध और संतुलित होते हैं - जिसके कारण हमारे शरीर की विभिन्न बीमारियां (शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक) भी ठीक हो जाती हैं। इसलिए शुद्ध, प्रामाणिक ध्यान के फलस्वरूप, हमारी अन्य सभी समस्याएं भी हल हो जाती हैं।

सहज कृषि भारत सरकार द्वारा अभिस्वीकृत है।



परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी

सहज कृषि तकनीक

9

चैतन्य लहरियों का प्रभाव मानव शरीर के उत्थान के साथ-साथ सभी जीवन्त चीजों पर क्रमशः पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वातावरण पर कार्य करता है। जिसे हम सहज कृषि, बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, मशरूम, मछली पालन, टिश्यूकल्चर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मसाले, औषधीय, फूलों की खेती इत्यादि में अपनाकर अधिक गुणवत्ता तथा उत्पादन लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर खुशहाल हो सकते हैं। किसान भाईयों को सहज कृषि की विधियाँ समझाई जा रही है जो बहुत आसान व सरल है।

1. कृषक सहजयोगी हो, नियमित ध्यान धारण करता हो एवं सामूहिकता में कार्य करता हो ।
2. कृषक सहज कृषि के प्रभाव को जानने के लिए एक खेत में चैतन्यमय बीज व पानी का उपयोग करें तथा दूसरे खेत में कृषक द्वारा अपनाई जा रही विधि, खाद, दवा का उपयोग कर मूल्यांकन करें।
3. सर्वप्रथम श्री माताजी निर्मला देवी की फोटों के समक्ष बीज जो आप बोना चाहते हैं, (अनाज, दलहन, तिलहन, फल, फूल, सब्जी के बीज, पौध, धान, कटिंग गुलाब, गन्ना के टुकड़े एवं अन्य जीवन्त सामग्री) रखें, साथ ही एक पात्र (बाल्टी) में पानी प्रातः/ सांय को रखें, दूसरे दिन चैतन्यमय पानी को जहाँ आप बीज बो रहे थे, हाथ से छिड़के या फिर स्प्रेअर में भरकर भी छिड़क सकते हैं। पलेवा करते समय चैतन्यमय पानी को मटके में भरके उसमें छोटा-सा छेद कर पानी की नाली (धौरा) पर रखकर टपका-टपका कर पूरे खेत में पहुँचाये, बाद में चैतन्यमय बीज की बुवाई करें, ध्यान रहे कि प्रत्येक सिंचाई में श्री माताजी का चैतन्यमय पानी का उपयोग करें।
4. खेत की नकरात्मकता समाप्त करने के लिए खेत के चारों तरफ पानी वाला नारियल, गणेश अथर्वशीर्ष बोलते हुए स्थापित करें । सहज योगी / योगिनी सामूहिक ध्यान धारणा करते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करें या खेत में सामूहिक हवन करें।
5. पानी एवं फसल को दोनों हाथ आगे करते हुए सामूहिक चैतन्य प्रवाहित करना, शाकम्भरी या ऋतुम्भरा मंत्र का जाप करते हुए फसल या जीवन्त चीजों पर चैतन्य देना।
6. परमपूज्य श्रीमाताजी से प्रार्थना करना कि यह खेत, फसल आपकी है, आप ही कर्ता है, आप ही भोक्ता है, कृपया मेरी खेती को अच्छा कर दीजिए।



कृषि विज्ञान केंद्र, अहमदनगर, महाराष्ट्र,
ग्वार परिक्षण रिपोर्ट - वर्ष २०२१
पैदावार - क्विंटल प्रति हेक्टर
चैतन्यित - 9.40
अचैतन्यित - 8.60



फूल गोबी - वजन ५ kg
पालमपुर गुजरात



मूंगफली की पैदावार बढ़ी -73%
महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय,
उदयपुर राजस्थान।




पशु की शारीरिक वजन - 15% बढ़ी
वैज्ञानिक डॉ. हामिद मायलानी
वीएना, ऑस्ट्रिया



अनुसंधान कार्य राहुरी कृषि विश्वविद्यालय
उपलब्धि (YIELD) बढ़ी - 14.3 - 50%



सूरजमुखी और मक्का
उपलब्धि (YIELD) बढ़ी - 20-25%
वैज्ञानिक डॉ. हामिद मायलानी, वीएना, ऑस्ट्रिया



सहज कृषि के कुछ परिणाम

11



पंजाबराव बिहाड़े, महाराष्ट्र
9552273001



तरुण चौधरी, दादरी
80100 06868



नरेश कुमार साहू, राजस्थान
90792 38021



कैप्टन राजेशकुमार साहू, उत्तर प्रदेश
मचलाई, बदायूं



संदीप देशमुख, महाराष्ट्र
अनार के फल



पुरखा राम कप्तान, राजस्थान
9414560444

चैतन्यित जल द्वारा उपचारित कुछ खाद्य पदार्थ

12



सहज योग सहज कृषि सिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारी जन



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य

13

सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय
एवम प्रौद्योगिकी पंतनगर, उत्तराखंड

- लौकी 2.5 से 3 फुट लम्बी जबकि कंट्रोल में 1.5 फुट लम्बी
- टमाटर की भरपूर पैदावार
- आकर्षक, मनमोहक बड़े साइज के फूलों की पैदावार



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे

- औसत पोधे के बढ़वार में वृद्धि 0 - 42.9 प्रतिशत
- अंकुरण क्षमता में वृद्धि 0 - 20 प्रतिशत
- उत्पादन ब्रवालिटी में सुधार 4 - 80 प्रतिशत
- फसल पैदावार में वृद्धि 14.7 - 50 प्रतिशत
- पक्षियों के वजन में सुधार
- अण्डे देने की क्षमता में सुधार



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
फसल अनुसंधान केंद्र पाघरा घाट जिला बहराइच,
नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, फैजाबाद यु. पी.

- धान की पैदावार 29 प्रतिशत बढ़ी
- गेहूँ की पैदावार 28 प्रतिशत बढ़ी
- पपीता 1.5 गुना बढ़ी चमकदार एवं बीमारी रहित



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान केंद्र जोधपुर (राजस्थान)

मूंग की पैदावार 30 प्रतिशत बढ़वार



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर (राजस्थान)

सरसों की पैदावार 12 प्रतिशत बढ़ी



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
केंद्रीय शुष्कउद्यानिकी संस्थान बीकानेर (राजस्थान)

जई चारा का उत्पादन 20.61 प्रतिशत तक बढ़ा



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
कृषि विज्ञान केंद्र दहिगाओ अहमदनगर (महाराष्ट्र)

ग्वार की पैदावार 9.3 प्रतिशत बढ़ी



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
सहज योग केंद्र जयपुर
(जी. डी. पारीक संयुक्त निर्देशक कृषि राजस्थान सरकार)

गेहूँ की पैदावार 20-25 प्रतिशत बढ़ी (2 वर्ष आधार पर)



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय एवं टेक्नोलॉजी उदयपुर

मूँगफली की पैदावार 73 प्रतिशत बढ़ी



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
डॉ. हमीद माइलिनी वियना (ऑस्ट्रिया) यूरोप

पौधों के बढ़वार अनुपात सुरजमुखी में 75-80 प्रतिशत में बढ़कर 95-100 प्रतिशत जिसमें सुरजमुखी पैदावार 20-25 प्रतिशत बढ़ी



14


सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
डॉ. हमीद माइलिनी वियना (ऑस्ट्रिया) यूरोप

पशुओं के वजन में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी



सहज कृषि पर हुए अनुसंधान कार्य
डॉ. हमीद माइलिनी वियना (ऑस्ट्रिया) यूरोप

पानी के molecular संरचना में परिवर्तन - 104.5° से बढ़कर 108.45°, पानी की घुलनशीलता में सुधार



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री सामलभाई पटेल
पालनपुर
मो.9429088269

परिणाम
सब्जियों का अधिक उत्पादन (आलू, फूलगोभी, कुकबिटीज), 5 किलो की फूलगोभी



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री राजेश माली
उज्जैन मध्यप्रदेश
मो. 9981508848

परिणाम
गुलाब आकर्षक, सहकटार बड़े साइज होने से सुनाफा ज्यादा



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री प्रियदर्शन पलामू
डाल्टनगंज झारखंड

परिणाम
सहज पद्धति से मुर्गी पालन, धान, पपीता की खेती से फायदा



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री संदीप देशमुख
सांगली महाराष्ट्र कृषि भूषण
अवाई 2018 से सम्मानित
मो: 9665946189

परिणाम -
सहज कृषि पद्धति से अनाद का तुलना मुनाका एक अनाद वजन 800 ग्राम से 1 किलो तक



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री भरत कुमार पटेल
पालनपुर, गुजरात

परिणाम
तरबूज उपज में वृद्धि



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री टंका गौतम
चितवन नेपाल

परिणाम
पपीता का अधिक उत्पादन बीमारी रहित



सहज कृषि पर कृषकों के फसलों के परिणाम

श्री नरेश साहू छावड़ा
जिला बरन, राजस्थान
मो.9079238021

परिणाम
पत्तागोभी व लहसुन का अधिक उत्पादन



सहज योग कृषि को मिला श्रेष्ठ पुरस्कार

कुरुपति कृषि विश्वविद्यालय
अजमेर, आईसीएआर नई दिल्ली, कृषि उपज मंडी उज्जैन, शेतकारी मंडल अहमदनगर, उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहज कृषि को उत्कृष्टता पुरस्कार।

